



CORPORATE FEDMOBILE - नियम और शर्तें

परिभाषाएं

इस दस्तावेज़ में, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ निम्नानुसार होगा, जब तक कि संदर्भ अन्यथा इंगित न करे:

"बैंक" से तात्पर्य The Federal Bank Ltd से है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ में एक बैंकिंग कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय फेडरल टॉवर्स, अलुवा -683101, एर्नाकुलम, केरल में स्थित है।

"ग्राहक" या "संस्था" से तात्पर्य बैंक के ऐसे ग्राहक से है, चाहे वह कोई प्राकृतिक व्यक्ति हो या कोई गैर-व्यक्तिगत संस्था, जो एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, ट्रस्ट या एसोसिएशन हो सकती है, जिसने Corporate FedMobile सेवा के लिए अनुरोध किया है और/या ऐसी सेवा का लाभ उठाएगा, और इसमें प्रयोक्ता और बाहरी प्रयोक्ता भी शामिल होंगे, जहां भी संदर्भ की आवश्यकता हो।

"खाता(ते)" से तात्पर्य बैंक खाता और/या किसी अन्य प्रकार के खाते से है जो ग्राहक द्वारा The Federal Bank Ltd या उसके किसी भी संबद्ध संस्थान के साथ बनाए रखा जाता है जिसके लिए यह सुविधा प्रदान की जा रही है या भविष्य में प्रदान की जा सकती है (प्रत्येक एक "खाता" और सामूहिक रूप से "खाते")।

"सुविधा" या "Corporate FedMobile" से तात्पर्य बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल बैंकिंग सुविधा से है, जो ग्राहकों को उनके खाते (खातों) से संबंधित जानकारी, लेनदेन विवरण और बैंक द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सेवाओं सहित निर्दिष्ट बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती है।

"Corporate FedMobile ऐप" - मोबाइल बैंकिंग लेनदेन करने के लिए एंड्रॉइड और IOS में उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन (FedMobile के समान) जिसे यहां मोबाइल ऐप कहा गया है।

"Corporate FedMobile वेब" - बैंकिंग लेनदेन को डिजिटल रूप से करने के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन (FedNet और कॉर्पोरेट FedNet के समान) जिसे यहां वेब एप्लिकेशन या वेब ऐप कहा गया है।

"कॉर्पोरेट ग्राहक ID" - बैंक के रिकॉर्ड में उपलब्ध ग्राहक ID संख्या, जो संस्था के नाम पर खोली गई है।

"कॉर्पोरेट ID" - संस्था के लिए प्रयोक्ता ID, जिसे संस्था द्वारा Corporate FedMobile सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से निर्धारित या प्राथमिकता दी जाती है, जो 'कॉर्पोरेट ग्राहक ID' से जुड़ी होगी।

"मोबाइल फोन नंबर" या "मोबाइल नंबर" से तात्पर्य ग्राहक या प्रयोक्ता के अंतिम अद्यतन मोबाइल नंबर से है, जो बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज है और जिसका उपयोग ग्राहक ने सुविधा के लिए पंजीकरण करने के लिए किया है।

"प्रयोक्ता" - एक प्राकृतिक व्यक्ति जो मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करता है और संस्था से संबंधित खातों को संचालित करने का विशेषाधिकार रखता है। सभी प्रयोक्ताओं के पास बैंक में पंजीकृत एक वैध ग्राहक ID होनी चाहिए जो संस्था की ग्राहक ID या 'कॉर्पोरेट ग्राहक ID' से जुड़ी हो। सभी प्रयोक्ताओं के पास बैंक में पंजीकृत एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए।

"प्रयोक्ता ID" - Corporate FedMobile सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रयोक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रयोक्ता ID। प्रत्येक प्रयोक्ता ID बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद प्रयोक्ता की वैध ग्राहक ID से लिंक होगी।



"बाह्य प्रयोक्ता" - एक प्राकृतिक व्यक्ति और संस्था का कर्मचारी या अन्यथा अधिकृत व्यक्ति, जिसे Corporate FedMobile के वेब संस्करण ('Corporate FedMobile वेब') में लॉग इन करने और शुरू करने का सीमित विशेषाधिकार प्राप्त है। बाहरी प्रयोक्ताओं के पास बैंक के रिकॉर्ड में वैध ग्राहक ID होना आवश्यक नहीं है।

"बाहरी प्रयोक्ता ID" - बाहरी प्रयोक्ताओं के लिए Corporate FedMobile सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य से दी गई प्रयोक्ता ID वरीयता। बाह्य प्रयोक्ता ID को कॉर्पोरेट ID से जोड़ा जाएगा।

"पंजीकरण करने वाली संस्था" - एक प्राकृतिक व्यक्ति जो संस्था और संस्था के प्रयोक्ताओं की ओर से पंजीकरण प्रक्रिया करता है। पंजीकरण कराने वाली संस्था के पास बैंक के रिकॉर्ड में वैध ग्राहक ID होना आवश्यक नहीं है। खाता पंजीकृत करने वाली संस्था के रूप में खाते के अधिकृत संचालक या संस्था द्वारा विधिवत अधिकृत कर्मचारी या अन्य व्यक्ति हो सकता है।

"व्यक्तिगत जानकारी" से तात्पर्य सुविधा के संबंध में ग्राहक के बारे में प्राप्त की गई जानकारी से है।

"वेबसाइट" से तात्पर्य www.federal.bank.co.in, <https://fedcorp.federal.bank.co.in> या बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य वेबसाइट से है।

"MPIN" से तात्पर्य सुविधा के लिए व्यक्तिगत पहचान संख्या (पासवर्ड) से है।

"अलर्ट" से तात्पर्य ग्राहक द्वारा भेजे गए ट्रिगर्स के जवाब में ग्राहक के मोबाइल फोन नंबर पर लघु संदेश सेवा ("SMS") के रूप में भेजे गए अनुकूलित संदेशों से है।

"ट्रिगर्स" से तात्पर्य उन अनुकूलित ट्रिगर्स से है जिन्हें ग्राहक द्वारा बैंक के साथ सेट करना आवश्यक है, जिससे बैंक उसके खाते से संबंधित अलर्ट भेज सके।

"मोबाइल बैंकिंग मेनू" से तात्पर्य Corporate FedMobile ऐप में मौजूद उन विकल्पों से है जिन्हें मोबाइल फोन हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है, ताकि संबंधित मेनू विकल्पों का प्रतिनिधित्व करने वाले अंकों को टाइप करके खात(तों) से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सके।

"GPRS" का अर्थ जनरल पैकेट रेडियो सेवा होगा।

इस दस्तावेज़ में, ग्राहक के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगों को भी शामिल करने के रूप में समझा जाएगा।

नियम एवं शर्तों की प्रयोज्यता

ये नियम और शर्तें, ग्राहक द्वारा किए गए और बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदन के साथ मिलकर, ग्राहक और बैंक के बीच अनुबंध का निर्माण करेंगी, और ये अनुबंध बैंक द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ सहमत शर्तों के अधीन भी होंगे। ये नियम और शर्तें टेलीबैंकिंग सुविधा, FedNet, ATM/डेबिट कार्ड सुविधा और ग्राहक के किसी भी खाते और/या बैंक और उसके सहयोगियों द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य उत्पाद/सेवाओं से संबंधित नियमों और शर्तों के अतिरिक्त होंगी और उनका उल्लंघन नहीं करेंगी। यहां दी गई शर्तों और नियमों के अतिरिक्त, The Federal Bank Ltd की मोबाइल बैंकिंग सेवा "FedMobile" के उपयोग को नियंत्रित करने वाली सभी शर्तें और नियम "Corporate FedMobile" ग्राहक/ग्राहकों और अधिकृत प्रयोक्ता/प्रयोक्ताओं पर भी लागू होंगे और बाध्यकारी होंगे, बशर्ते कि वे यहां दी गई शर्तों और नियमों के साथ असंगत न हों।



एप्लीकेशन

ग्राहक को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए (और/या इस सुविधा के तहत उपलब्ध विकल्पों में किसी भी बदलाव के लिए) बैंक को निर्दिष्ट आवेदन पत्र में और/या बैंक द्वारा समय-समय पर इस सुविधा के उपयोग के लिए प्रदान की गई किसी अन्य तरीके से आवेदन करना होगा। बैंक ग्राहकों को उनके डेबिट कार्ड के विवरण का उपयोग करके प्रमाणीकरण के ज़रिए Corporate FedMobile ऐप के ज़रिए इस सुविधा के लिए आवेदन करने का विकल्प प्रदान कर सकता है। इस सुविधा के लिए आवेदन ग्राहक के प्रमाणीकरण के बाद ही स्वीकार किया जाएगा, जिसके लिए बैंक द्वारा निर्धारित सत्यापन के किसी भी तरीके का उपयोग किया जा सकता है।

पात्र ग्राहक

1. सभी KYC अनुपालन करने वाले गैर-व्यक्तिगत श्रेणी के ग्राहक जिनके चालू/बचत/ओवरड्राफ्ट/नकद क्रेडिट खाते संतोषजनक स्थिति में हैं, इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
2. यह सुविधा ग्राहक के एकल या संयुक्त रूप से संचालित खाते के मामले में उपलब्ध होगी। संयुक्त रूप से संचालित खाते के लिए, यह सुविधा कुछ या सभी प्रयोक्ताओं को तभी प्रदान की जाएगी जब ग्राहक संबंधित प्रयोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से अधिकृत कर देगा।

प्रयोज्यता

1. बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज अंतिम अपडेट किया गया मोबाइल नंबर ही इस सुविधा के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर होगा। ग्राहक इस बात से सहमत है कि वह इस सुविधा का उपयोग केवल अपने नाम पर मोबाइल सेवा प्रदाता के पास विधिवत और वैध रूप से पंजीकृत मोबाइल फोन पर ही करेगा और यह वचन देता है कि वह इस सुविधा का उपयोग केवल उसी मोबाइल नंबर के ज़रिए करेगा जिसका उपयोग इस सुविधा के लिए पंजीकरण करने के लिए किया गया है।
2. इस सुविधा को सक्रिय करने के उद्देश्य से, ग्राहक एतद्वारा बैंक द्वारा निर्धारित प्रमाणीकरण के किसी अन्य तरीके के अतिरिक्त, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर स्वचालित वॉइस कॉल सेवा के ज़रिए वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त करने के लिए सहमति देता है, भले ही उक्त मोबाइल नंबर सेवा प्रदाता की 'डू नॉट डिस्टर्ब' सेवा/डेटाबेस में पंजीकृत हो।
3. फिलहाल, एक ही प्रयोक्ता के दो मोबाइल नंबरों के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है।
4. एक ही ग्राहक ID से जुड़े सभी खाते इस सुविधा के लिए पंजीकृत किए जा सकते हैं, लेकिन ग्राहक का प्राथमिक चालू/बचत/ओवरड्राफ्ट/नकद क्रेडिट खाता ही इस सुविधा का प्राथमिक खाता होगा।
5. बैंक बिना कोई कारण बताए ग्राहक के इस सुविधा के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. तीन बार गलत MPIN दर्ज करने पर उस दिन के लिए खाते की सुविधा अवरुद्ध हो जाएगी और लगातार तीन बार अवरुद्ध होने पर ग्राहक का खाता निष्क्रिय हो जाएगा और ग्राहक को उसी के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुविधा के लिए पुनः पंजीकरण करना होगा।
6. ग्राहक अपने मोबाइल नंबर, ईमेल पते या खाता विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना बैंक को देने के लिए उत्तरदायी है और बैंक ग्राहक के मोबाइल नंबर/ईमेल पते/फैक्स नंबर पर अलर्ट या अन्य जानकारी भेजने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो बैंक के पास दर्ज है।



सुविधा का उपयोग

1. बैंक को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और/या ऐसे अन्य उपकरणों का उपयोग करने का अधिकार होगा जिन्हें बैंक उपयुक्त समझे और सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार या उचित रूप से उनमें संशोधन करने का भी अधिकार होगा। ग्राहक को भुगतान तंत्र के मानकों (उस समय लागू) और बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर लागू मानकों का अनुपालन करने के लिए अपने सिस्टम/मोबाइल उपकरणों/नेटवर्क को संशोधित/अपग्रेड करने की आवश्यकता भी हो सकती है।
2. संस्था कॉर्पोरेट ID/प्रयोक्ता ID चुनने के लिए स्वतंत्र है और अधिकृत प्रयोक्ता बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पसंद का पासवर्ड/MPIN चुनने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, यदि तकनीकी या अन्य कारणों से बैंक यह निर्णय लेता है कि पंजीकरण करने वाली संस्था/अधिकृत प्रयोक्ता द्वारा चुने गए ID/पासवर्ड/MPIN उसे आवंटित नहीं किए जा सकते हैं, तो पंजीकरण करने वाली संस्था/अधिकृत प्रयोक्ता को दूसरा ID/पासवर्ड/MPIN चुनना होगा। अधिकृत प्रयोक्ता को सलाह दी जाती है कि वह ऐसा पासवर्ड चुनने से बचें जो शब्दकोश का शब्द हो या जिसका अनुमान नाम, जन्मतिथि, पता, टेलीफोन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस/कार नंबर आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी से लगाया जा सके।
3. ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यह सिस्टम खोए हुए या भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है। यदि अधिकृत प्रयोक्ता अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो उसे डुप्लिकेट पासवर्ड के लिए पंजीकरण करना होगा और अधिकृत प्रयोक्ता को एक नया पासवर्ड जारी किया जाएगा।
4. इंटरनेट कनेक्टिविटी और/या मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी में रुकावट के कारण वैध सत्र के अनजाने में समाप्त होने की स्थिति में, यह सुझाव दिया जाता है कि अधिकृत प्रयोक्ता नए सिरे से लॉगिन करें और अंतिम अनुरोधित लेनदेन की स्थिति सत्यापित करें और सुनिश्चित करें कि यह सफलतापूर्वक और सही ढंग से दर्ज किया गया है।
5. प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए लेन-देन को लॉग किया जाता है और पूर्ति के लिए संबंधित बैंक शाखा के डेटाबेस में भेजा जाता है। ये अनुरोध उस समय से प्रभावी होते हैं जब इन्हें संबंधित शाखा में दर्ज/पंजीकृत किया जाता है जहां ग्राहक/कंपनी का खाता है।
6. बैंक यह मानकर चलता है और ग्राहक यह स्वीकार करता है कि उपयुक्त प्रयोक्ता ID और पासवर्ड/MPIN का उपयोग करके लॉग-इन करना एक वैध सत्र है, जिसे उक्त प्रयोक्ता ID और पासवर्ड/MPIN से संबंधित अधिकृत प्रयोक्ता के अलावा किसी और द्वारा शुरू नहीं किया गया है। बैंक पंजीकृत मोबाइल नंबर के ज़रिए बैंक को प्राप्त सभी इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण, आदेश या संदेशों पर भरोसा करेगा और बैंक यह मानकर चलेगा कि संप्रेषण का प्रवर्तक वह अधिकृत प्रयोक्ता है जिसे प्रयोक्ता ID/पासवर्ड जारी किया गया है।
7. बैंक इस बात की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है कि क्या अधिकृत प्रयोक्ता को ग्राहक/कॉर्पोरेट के किसी उपयुक्त या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्राहक की ओर से Corporate FedMobile सेवा तक पहुंचने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है या नहीं। तदनुसार, बैंक द्वारा यह माना जाएगा कि ग्राहक की ओर से Corporate FedMobile सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्ति के पास Corporate FedMobile सेवा तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार है।
8. इस अनुबंध में किसी भी बात के होते हुए भी, यदि बैंक को यह मानने का कारण हो कि कोई लेन-देन/डेबिट या ग्रहणाधिकार का चिह्न धोखाधड़ी से किया गया है (जिसे आगे "संदिग्ध लेन-देन" कहा गया है), तो बैंक मनी लॉन्ड्रिंग आदि से संबंधित नियामक कानूनों के अनुसार ऐसे संदिग्ध लेन-देन से संबंधित भुगतान को रोकने का हकदार होगा। यदि बैंक उचित पूछताछ और जांच के बाद यह निर्धारित करता है कि लेन-देन वैध है और संदिग्ध लेन-देन नहीं है, तो बैंक रोके गए भुगतान



को जारी कर देगा। बशर्ते कि बैंक पर्याप्त कारण के बिना ग्राहक को भुगतान नहीं रोकेगा, और ऐसे पर्याप्त कारण पाए जाने पर बैंक द्वारा ग्राहक को इसकी सूचना दी जाएगी। इसके अलावा, यदि 6(छह) महीनों की अवधि के भीतर बैंक उचित पूछताछ और जांच के बाद यह निर्धारित करता है कि कोई संदिग्ध लेनदेन वैध लेनदेन नहीं है, तो बैंक उस अवैध लेनदेन को रद्द कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक बैंक को बकाया राशि, यदि कोई हो के लिए उत्तरदायी होगा।

9. अधिकृत प्रयोक्ता को अपनी प्रयोक्ता ID और पासवर्ड/MPIN को पूरी तरह से गोपनीय रखना होगा और यह जानकारी केवल उसी को पता होनी चाहिए। पासवर्ड/MPIN को कहीं लिखकर रखने की बजाय उसे याद रखना एक अच्छी आदत है। इस शर्त के उल्लंघन के कारण ग्राहक को होने वाली हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। अधिकृत प्रयोक्ता को वैध सत्र के दौरान मोबाइल डिवाइस को छोड़ने और/या किसी तीसरे पक्ष को मोबाइल डिवाइस का उपयोग करने की अनुमति देने के खिलाफ भी चेतावनी दी जाती है।

10. अधिकृत प्रयोक्ताओं के ज़रिए ग्राहक को दी गई Corporate FedMobile सुविधाओं का अनुदान किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है और इसका उपयोग केवल ग्राहक द्वारा ही किया जाएगा।

11.

उपलब्धता एवं प्रकटन

बैंक इस सुविधा के ज़रिए ग्राहक को ऐसी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा, जिनका निर्णय बैंक समय-समय पर ले सकता है। बैंक प्रत्येक खाते पर ग्राहक को कौन सी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, यह तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ये पेशकशें ग्राहक के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। बैंक अपने विवेक के अनुसार इस सुविधा के ज़रिए दी जाने वाली सेवाओं में कुछ जोड़ या हटा भी सकता है। यह सुविधा ग्राहक के अनुरोध पर, बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार पर उपलब्ध कराई जाती है और बैंक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय इसे बंद किया जा सकता है। बैंक को लागू कानूनों के अधीन अनिवासी भारतीयों को यह सुविधा प्रदान करने का विवेकाधिकार होगा। ग्राहक के निर्देशों का पालन ग्राहक के मोबाइल फोन नंबर के सत्यापन और/या बैंक द्वारा ग्राहक को आवंटित MPIN/पासवर्ड के सत्यापन या बैंक के विवेकानुसार निर्धारित किसी अन्य सत्यापन विधि के ज़रिए ग्राहक के प्रमाणीकरण के बाद ही प्रभावी होगा।

निर्देश

इस सुविधा के अंतर्गत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सभी निर्देश बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से मोबाइल फोन नंबर के ज़रिए प्रदान किए जाएंगे। बैंक, प्रयोक्ताओं/बाहरी प्रयोक्ताओं के ज़रिए ग्राहक द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई करने का हकदार होगा और बैंक, प्रयोक्ताओं/बाहरी प्रयोक्ताओं के ज़रिए ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश पर कार्रवाई करने से पहले ग्राहक से किसी भी प्रकार की पुष्टि या स्पष्टीकरण मांगने के लिए बाध्य नहीं होगा। ग्राहक और बैंक को इस सुविधा के तहत सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार होगा यदि बैंक के पास यह मानने का कारण है कि ग्राहक के निर्देशों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान हो सकता है या सुविधा का संचालन जारी रखने से पहले ग्राहक से क्षतिपूर्ति की आवश्यकता हो सकती है। ग्राहक स्वीकार करता है कि सभी जानकारी/निर्देश विभिन्न स्थानों पर भेजे जाएंगे और/या संग्रहीत किए जाएंगे तथा बैंक (और उसके सहयोगी संस्थाओं) के कर्मियों द्वारा उन तक पहुंच प्राप्त की जा सकेगी। बैंक को ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष से संबंधित कोई भी जानकारी या विवरण प्रदान करने का अधिकार है ताकि सुविधा प्रदान करने में सुविधा हो और किसी भी निर्देश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो। ग्राहक यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक अलर्ट में ग्राहक से संबंधित कुछ खाता जानकारी शामिल हो सकती है। ग्राहक बैंक को खाते से संबंधित जानकारी भेजने के लिए अधिकृत करता है, भले ही बैंक ने विशेष रूप से अनुरोध न किया हो, यदि बैंक को लगता है कि यह प्रासंगिक है। इस सुविधा के ज़रिए भेजी जा रही व्यक्तिगत या खाता संबंधी जानकारी की गोपनीयता, सुरक्षा और संरक्षण के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।



निधि हस्तांतरण सुविधा

यदि इस सुविधा के ज़रिए ग्राहक को निधि हस्तांतरण सेवा उपलब्ध कराई जाती है, तो इसका उपयोग बैंक में और/या भारतीय रिज़र्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणाली या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणाली या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या तत्काल भुगतान सेवा या ऐसे किसी अन्य अनुमत माध्यम के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य बैंक में तीसरे पक्ष या स्वयं ग्राहक के खातों में धनराशि हस्तांतरित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, इस सुविधा के अतिरिक्त, अन्य सुविधाओं पर लागू होने वाली शर्तें भी लागू होंगी। बैंक को समय-समय पर लेनदेन पर सीमा/कैप (प्रति लेनदेन, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक), लेनदेन की गति सीमा आदि लगाने का अधिकार है, जैसा कि बैंक द्वारा तय किया जा सकता है और ऐसी लेनदेन सीमाओं को बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

सूचना की सटीकता

ग्राहक जहां भी आवश्यक हो, सटीक जानकारी प्रदान करने का वचन देता है और सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य सहित, बैंक को उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सत्यता के लिए हर समय जिम्मेदार होगा। ग्राहक द्वारा दी गई गलत जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। यदि ग्राहक को संदेह है कि बैंक द्वारा उसे दी गई जानकारी में कोई त्रुटि है, तो उसे यथाशीघ्र बैंक को सूचित करना चाहिए। बैंक यथासंभव उचित प्रयास करते हुए त्रुटि को सुधारने का हर संभव प्रयास करेगा। यद्यपि बैंक ग्राहक को दी गई जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा, फिर भी अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप गलत जानकारी प्रदान की जाती है। यदि ग्राहक को दी गई जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है, तो ग्राहक को होने वाली किसी भी हानि, क्षति आदि के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। **ग्राहक इस बात से सहमत है कि सुविधा का उपयोग केवल मोबाइल फोन नंबर के ज़रिए ही किया जा सकेगा और उसी से उत्पन्न होने वाला कोई भी लेनदेन, चाहे वह ग्राहक द्वारा शुरू किया गया हो या नहीं, ग्राहक द्वारा उत्पन्न माना जाएगा।**

बैंक को प्राधिकृत करना

ग्राहक इस सुविधा के ज़रिए प्रभावी बैंकिंग या अन्य लेनदेन के लिए बैंक को अपने सभी खातों तक पहुंचने के लिए अपरिवर्तनीय और बिना शर्त अधिकृत करता है। ग्राहक बैंक को ग्राहक के अनुरोधों को स्वीकार करने/पूरा करने के उद्देश्य से खाते की जानकारी तीसरे पक्ष के साथ साझा करने के लिए भी अधिकृत करता है।

ग्राहक इस बात से सहमत है कि बैंक और/या इसके सहयोगी संस्थान सुविधा के संबंध में, साथ ही विश्लेषण, क्रेडिट स्कोरिंग और मार्केटिंग के लिए, कंप्यूटर पर या किसी अन्य स्रोत से उसके खातों से संबंधित उसकी व्यक्तिगत जानकारी को रख सकते हैं और संसाधित कर सकते हैं। ग्राहक इस बात से भी सहमत है कि बैंक अन्य संस्थानों को ऐसी जानकारी पूर्ण गोपनीयता के साथ प्रकट कर सकता है जो दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग नेटवर्क में भागीदारी, कानूनी निर्देश का अनुपालन, मान्यता प्राप्त क्रेडिट स्कोरिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग और धोखाधड़ी की रोकथाम सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, कारणों से यथोचित रूप से आवश्यक हो सकती है।

ग्राहक बैंक और उसके एजेंटों को अपने मोबाइल फोन पर कोई भी संदेश भेजने या कॉल करने के लिए अधिकृत करता है ताकि उसे किसी भी प्रचार प्रस्ताव के बारे में सूचित किया जा सके, जिसमें बैंक के नए उत्पादों के बारे में जानकारी शामिल है, चाहे वे उत्पाद वर्तमान में उपलब्ध हों या भविष्य में बैंक द्वारा पेश किए जा सकते हों, शुभकामनाएँ या कोई अन्य संदेश जो बैंक प्रयोक्ता के लिए उपयुक्त समझे।



प्रयोक्ता इस बात से अपरिवर्तनीय और बिना शर्त सहमत है कि बैंक और/या उसके एजेंटों द्वारा किए गए ऐसे कॉल या संदेशों को प्रयोक्ता की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

शुल्क

बैंक को समय-समय पर उचित समझे जाने वाले शुल्क वसूलने का अधिकार होगा और वह अपने विवेक से, किसी भी या सभी सुविधाओं के उपयोग के लिए शुल्क में संशोधन कर सकता है, और इसकी सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, जो ग्राहक के लिए पर्याप्त सूचना मानी जाएगी। ग्राहक किसी भी समय उक्त सुविधा का उपयोग बंद कर सकता है या सदस्यता रद्द कर सकता है। ग्राहक को एयरटाइम या अन्य किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना होगा जो किसी भी सेलुलर सेवा प्रदाता द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाने के संबंध में लगाया जा सकता है और बैंक का इससे कोई लेना-देना नहीं है। ग्राहक द्वारा देय शुल्क में किसी भी सेलुलर सेवा प्रदाता को देय राशि शामिल नहीं है और यह राशि ग्राहक के खाते से डेबिट की जाएगी। ग्राहक को समय-समय पर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई शुल्क अनुसूची को देखना आवश्यक होगा।

सेट-ऑफ़

1. बैंक और उसकी समूह कंपनियों को किसी भी अन्य ग्रहणाधिकार या प्रभार, वर्तमान और भविष्य के बावजूद, ग्राहक के बैंक और/या संबद्ध कंपनियों के पास रखे गए किसी भी प्रकार और प्रकृति के जमा (स्थिर जमा सहित)/किसी अन्य खाते/खातों में शेष राशि पर, चाहे वह एकल नाम से हो या संयुक्त नाम से, तथा बैंक और/या संबद्ध कंपनियों द्वारा/उनके नियंत्रण में रखी गई किसी भी धनराशि, प्रतिभूतियों, बांडों और अन्य सभी परिसंपत्तियों, दस्तावेजों और संपत्तियों पर (चाहे सुरक्षा के रूप में हो या ग्राहक द्वारा किसी भी क्षमता में किए गए/किए जाने वाले किसी अनुबंध के अनुसार) सुविधा के तहत ग्राहक के दायित्व की पूर्ति के लिए सर्वोच्च ग्रहणाधिकार और ग्रहणाधिकार का अधिकार होगा। बैंक और/या संबद्ध संस्थाएं ग्राहक को बिना किसी पूर्व सूचना के, ग्राहक द्वारा बैंक और/या संबद्ध संस्थाओं को देय किसी भी प्रकार के ऋण (चाहे वह वास्तविक हो या आकस्मिक, प्राथमिक हो या संपार्श्विक, संयुक्त हो या पृथक) का निपटान करने के लिए अधिकृत हैं, चाहे यह निपटान इस अनुबंध के अंतर्गत हो या किसी अन्य दस्तावेज/समझौते के अंतर्गत, ग्राहक द्वारा बैंक और/या संबद्ध संस्थाओं के पास रखे गए किसी भी खाते में जमा राशि को समायोजित करके, समायोजित करके और/या राशि को स्थानांतरित करके किया जा सकता है, भले ही ऐसे खातों में जमा राशि/शेष राशि ऋण के समान मुद्रा में व्यक्त न की गई हो। बैंक और उसके सहयोगी संगठनों के इस अनुबंध के तहत दिए गए अधिकार ग्राहक के दिवालियापन, मृत्यु या परिसमापन से प्रभावित नहीं होंगे। किसी भी संयुक्त खाताधारक के साथ सभी विवादों/आपत्तियों का निपटारा करने की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व ग्राहक का होगा।

2. उपर्युक्त अधिकार या किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त, जिसके लिए बैंक और उसके सहयोगी किसी भी समय कानून, अनुबंध या अन्यथा के संचालन द्वारा हकदार हो सकते हैं, बैंक अधिकृत है / हकदार होगा: (a) बैंक और/या उसके संबद्ध संस्थानों की किसी भी शाखा के साथ ग्राहक के सभी या किसी भी खाते और देनदारियों को किसी भी समय संयोजित या समेकित करना; (b) बैंक द्वारा धारित ग्राहक की किसी भी प्रतिभूति या संपत्ति को सार्वजनिक या निजी बिक्री या किसी अन्य स्रोत से बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के बेचना या उसका निपटान करना और उससे प्राप्त आय में से ग्राहक द्वारा बैंक और/या संबद्ध संस्थानों को देय कुल राशि, जिसमें ऐसी बिक्री या निपटान से संबंधित लागत और व्यय शामिल हैं, को अपने पास रखना/उपयोग करना;

परिवर्तन



बैंक को किसी भी समय नियमों और शर्तों में संशोधन या उन्हें पूरक करने का पूर्ण अधिकार है और इन नियमों और शर्तों में ऐसा कोई भी संशोधन या बदलाव वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, जो ग्राहक के लिए पर्याप्त सूचना मानी जाएगी। इसके बाद, ऐसे संशोधित नियम और शर्तें ग्राहक पर लागू होंगी और बाध्यकारी होंगी।

समापन

ग्राहक बैंक को कम से कम 30 दिन का लिखित नोटिस देकर किसी भी समय यह सुविधा समाप्त करने का अनुरोध कर सकता है। सुविधा रद्द होने से पहले, ग्राहक अपने मोबाइल फोन नंबर से सुविधा के ज़रिए किए गए किसी भी लेनदेन के लिए जिम्मेदार रहेगा।

बैंक अपने विवेकानुसार, ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना, किसी भी समय इस सुविधा को अस्थायी रूप से वापस ले सकता है या पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है। बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय इस सुविधा को निलंबित कर सकता है, यदि कोई रखरखाव कार्य या मरम्मत की आवश्यकता हो, या किसी आपात स्थिति में, या सुरक्षा कारणों से, जिसके लिए सुविधा को निलंबित करना आवश्यक हो। बैंक इस सुविधा को वापस लेने या समाप्त करने के लिए उचित समय पूर्व सूचना देने का प्रयास करेगा।

यदि ग्राहक या अधिकृत प्रयोक्ता ने इसमें निहित किसी भी नियम और शर्तों या उनमें किए गए किसी भी संशोधन का उल्लंघन किया है, या बैंक को ग्राहक की मृत्यु, दिवालियापन, कानूनी क्षमता की कमी या किसी ऐसे विवाद के बारे में पता चलता है जो बैंक की राय में ग्राहक को दी गई Corporate FedMobile सुविधा के ज़रिए खाते के संचालन की अनुमति देने पर असर डालता है, तो बैंक ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना Corporate FedMobile सुविधा को निलंबित या समाप्त कर सकता है। ग्राहक के बंद होने से Corporate FedMobile सुविधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

नोटिस

बैंक और ग्राहक इन नियमों और शर्तों के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से (जिसे लिखित रूप में माना जाएगा) ईमेल के ज़रिए सूचना दे सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी सूचना ग्राहक को बैंक में पंजीकृत उसके ईमेल ID के ज़रिए भेजी/प्राप्त की जाएगी। बैंक को कोई भी सूचना बैंक के ईमेल ID contact@federalbank.co.in पर भेजी जा सकती है। बैंक और ग्राहक लिखित रूप में भी सूचना दे सकते हैं, जिसे ग्राहक द्वारा दिए गए अंतिम पते पर हाथ से सौंपकर या डाक द्वारा भेजा जा सकता है, और यदि सूचना बैंक को भेजी जाती है तो उसके कार्यालय, The Federal Bank Ltd, पंजीकृत कार्यालय, फेडरल टावर्स, अलुवा, एर्नाकुलम जिला, केरल, 683101 पर भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी वेबसाइट पर और/या ग्राहक/प्रयोक्ता को उनके मोबाइल नंबर पर लघु संदेश सेवा ("SMS") के ज़रिए भेजे गए अनुकूलित संदेशों द्वारा सुविधा और नियमों एवं शर्तों के संबंध में सामान्य सूचना भी प्रदान करेगा, जो सुविधा के सभी ग्राहकों पर लागू होती है। ऐसा नोटिस प्रत्येक ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से दिया गया माना जाएगा।

रिकॉर्ड्स

इस सुविधा के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लेन-देन से संबंधित बैंक के सभी रिकॉर्ड, जिनमें दर्ज किए गए लेन-देन का समय भी शामिल है, लेन-देन की प्रामाणिकता और सटीकता का निर्णायक प्रमाण होंगे। ग्राहक द्वारा बैंक को लेनदेन के विवरण को रिकॉर्ड करने का अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है।

दायित्व का अस्वीकरण



यदि ग्राहक भौगोलिक रूप से उस क्षेत्र में नहीं है जहां यह सुविधा उपलब्ध है, और इस कारण से वह इस सुविधा का उपयोग करने में असमर्थ है, तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में, यदि प्राकृतिक आपदाओं, कानूनी प्रतिबंधों, सिस्टम त्रुटि, दूरसंचार नेटवर्क में खराबी या नेटवर्क विफलता, या बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि ग्राहक को यह मानने का कारण है कि उसका मोबाइल फोन नंबर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किया गया है/किया जा रहा है और/या उसके खाते में कोई अनधिकृत लेनदेन हुआ है और/या उसका मोबाइल फोन खो गया है, तो वह इसकी सूचना तुरंत बैंक को रसीद सहित देगा।

ग्राहक इस बात से सहमत है कि तब बैंक उत्तरदायी नहीं होगा यदि

1. ग्राहक ने यहां उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया हो या
2. ग्राहक ने खाते में अनधिकृत पहुंच या गलत लेनदेन के बारे में उचित समय के भीतर बैंक को सूचित करने में योगदान दिया है या नुकसान ग्राहक की ओर से हुई विफलता का परिणाम हो;
3. ग्राहक द्वारा अपने मोबाइल फोन नंबर में परिवर्तन या उसे बंद करने की सूचना बैंक को न देने का परिणाम हो। बैंक किसी भी सेलुलर या किसी तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता (चाहे बैंक द्वारा उस संबंध में नियुक्त किया गया हो या अन्यथा) द्वारा ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं में किसी भी त्रुटि या चूक के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है, जो सुविधा को प्रभावित कर सकती है।
4. ग्राहक ने संस्था के खातों को देखने/पहुँचने/संचालित करने के लिए किसी भी प्रयोक्ता या बाहरी प्रयोक्ता के अधिकार के निलंबन या समाप्ति के बारे में बैंक को जल्द से जल्द सूचित नहीं किया है।

बैंक इस सुविधा के ज़रिए प्रेषित संदेशों, चाहे वे व्यक्तिगत हों या अन्य प्रकार के, की गोपनीयता या सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। बैंक इस प्रणाली और नेटवर्क या उनके कार्य या प्रदर्शन के संबंध में या ग्राहक या किसी भी व्यक्ति द्वारा इस सुविधा के परिणामस्वरूप या इसके संबंध में किसी भी प्रकार से हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए किसी भी प्रकार की कोई वारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

इन नियमों और शर्तों के अन्य प्रावधानों पर बिना किसी सीमा के, बैंक, उसके कर्मचारी, एजेंट या ठेकेदार, ग्राहक या किसी भी व्यक्ति को होने वाली किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जिसमें राजस्व, लाभ, व्यवसाय, अनुबंध, अपेक्षित बचत या सद्भावना की हानि, किसी भी उपकरण (सॉफ्टवेयर सहित) के उपयोग या मूल्य की हानि शामिल है, चाहे वह पूर्वानुमानित हो या नहीं, जो बैंक द्वारा अनुरोध प्राप्त करने और संसाधित करने तथा प्रतिक्रियाएँ तैयार करने और वापस भेजने में किसी भी देरी, रुकावट, निलंबन, समाधान या त्रुटि से उत्पन्न होती है या उससे संबंधित है, या ग्राहक के दूरसंचार उपकरण और किसी भी सेलुलर सेवा प्रदाता के नेटवर्क तथा बैंक के सिस्टम के बीच किसी भी सूचना या संदेश के प्रसारण में किसी भी विफलता, देरी, रुकावट, निलंबन, प्रतिबंध या त्रुटि से, या ग्राहक के दूरसंचार उपकरण, बैंक के सिस्टम या किसी भी सेलुलर सेवा प्रदाता के नेटवर्क तथा/या किसी तीसरे पक्ष के दूरसंचार उपकरण में किसी भी खराबी, रुकावट, निलंबन या विफलता से, जो सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है।

इन नियमों और शर्तों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, बैंक ग्राहक और किसी सेलुलर सेवा प्रदाता या किसी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता (चाहे बैंक द्वारा उस संबंध में नियुक्त किया गया हो या अन्यथा) के बीच किसी भी विवाद में शामिल नहीं होगा और न ही किसी भी तरह से ग्राहक के प्रति उत्तरदायी होगा। ग्राहक किसी भी प्रकार से इस सुविधा में हस्तक्षेप नहीं करेगा या इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, और ग्राहक द्वारा अनुचित या धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग के कारण किसी भी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में, ग्राहक बैंक को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।



ग्राहक अपने मोबाइल बैंकिंग व्यक्तिगत पहचान संख्या (MPIN), मोबाइल फोन नंबर और बैंक द्वारा इस सुविधा के उपयोग के लिए दिए गए किसी भी पासवर्ड की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। बैंक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं होगा:

(a) ग्राहक के MPIN, मोबाइल फोन का कोई भी अनधिकृत उपयोग या ग्राहक के MPIN या मोबाइल फोन नंबर के उपयोग द्वारा दिए गए किसी भी धोखाधड़ीपूर्ण, डुप्लिकेट या गलत निर्देश;

(b) बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी निर्देश पर नेक नीयत से कार्य करना;

(c) बैंक द्वारा किसी भी या सभी निर्देशों पर कार्रवाई करने में त्रुटि, चूक, देरी या असमर्थता

(d) संचरण में किसी भी सूचना/निर्देश का नुकसान;

(e) ग्राहक द्वारा दी गई किसी भी जानकारी/निर्देश तक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनधिकृत पहुंच या गोपनीयता का उल्लंघन;

(f) दूरसंचार उपकरण (जैसे मोबाइल हैंडसेट) में किसी अन्य समस्या/खामी/त्रुटि/तकनीकी समस्या या ग्राहक के मोबाइल नंबर/सिम की नकल आदि के परिणामस्वरूप खाते में कोई अनधिकृत लेनदेन, जैसे कि सिम कार्ड क्लोनिंग, हैंडसेट में वायरस/मैलवेयर आदि।

बैंक इस सुविधा के अंतर्गत कोई अन्य सेवाएं भी प्रदान कर सकता है और बैंक इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कि ग्राहक इस सुविधा में शामिल की गई सेवाओं और प्रत्येक उत्पाद के लिए बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध विशिष्ट सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में चूक करता है।

क्षतिपूर्ति

बैंक द्वारा सुविधा प्रदान करने के बदले में, ग्राहक इस बात से सहमत है कि वह बैंक को उन सभी कार्रवाइयों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, लागतों, शुल्कों और खर्चों से क्षतिपूर्ति करेगा और सुरक्षित रखेगा जो बैंक को सुविधा के उपयोग से दिए गए किसी भी निर्देश पर कार्रवाई करने, न करने या इनकार करने के परिणामस्वरूप किसी भी समय हो सकते हैं।

ग्राहक, बैंक/उसके सहयोगी संस्थानों को, इस सुविधा के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं को प्रदान करने में विफलता या सेलुलर सेवा प्रदाता के नेटवर्क में किसी खराबी या विसंगति के कारण सेवाओं को प्रदान करने में देरी से ग्राहक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। ग्राहक निम्नलिखित कारणों से होने वाली किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देने और उसे किसी भी प्रकार के नुकसान से मुक्त रखने के लिए सहमत है:

i. ग्राहक द्वारा किसी तीसरे पक्ष को सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देना।

ii. ग्राहक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन तक पहुंच प्रदान करने या मोबाइल फोन को लावारिस छोड़ने या मोबाइल फोन के खो जाने के परिणामस्वरूप।



लागू कानून

ये नियम और शर्तें तथा/या बैंक द्वारा ग्राहक के खातों में किए जाने वाले संचालन तथा/या इस सुविधा के ज़रिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा शासित होगा, किसी अन्य राष्ट्र के कानूनों द्वारा नहीं। बैंक भारत गणराज्य के अलावा किसी अन्य देश के कानूनों के अनुपालन न करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। इस तथ्य मात्र से कि इस सुविधा का उपयोग भारत के अलावा किसी अन्य देश में स्थित ग्राहक द्वारा किया जा सकता है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि उक्त देश के कानून इन नियमों और शर्तों और/या प्रयोक्ता/संस्था के सुविधा खातों में संचालन और/या सुविधा के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। Corporate FedMobile के ज़रिए किए गए लेन-देन के संबंध में ग्राहक और बैंक के बीच कोई भी विवाद उस बैंक की संबंधित शाखा के अधिकार क्षेत्र में आएगा जहां ग्राहक का खाता स्थित है।

अस्वीकरण

बैंक अपने विवेकानुसार, अपने उत्पादों/सेवाओं के संबंध में, बाहरी सेवा प्रदाता/एजेंटों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है और ऐसी शर्तों पर जो आवश्यक या अपेक्षित हों।

ग्राहक/अधिकृत प्रयोक्ता यह समझता है कि बैंक, IBA, RBI या कोई अन्य नियामक संस्था कभी भी ईमेल या अन्य माध्यमों से प्रयोक्ता ID, पासवर्ड या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए नहीं कहेगी। बैंक या कोई भी नियामक निकाय ग्राहक/अधिकृत प्रयोक्ता द्वारा प्रयोक्ता नाम/पासवर्ड/अन्य गोपनीय जानकारी के खुलासा करने के कारण ग्राहक/अधिकृत प्रयोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।